

Date: September 7, 2021

To,

Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051.

Respected Sir / Ma'am,

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements in respect of 4th Annual General Meeting

Ref: D. P. Abhushan Limited (Security Code: DPABHUSHAN)

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisements published in Financial Express - (in English) and Chautha Sansar - (in Hindi) on September 7, 2021 with respect to 4th Annual General Meeting of the Company.

Kindly take the same on your record.

For, D. P. Abhushan Limited

Santosh Kataria Whole-Time Director

DIN: 02855068

Place: Ratlam

Encl: A.a

Particulars

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or

period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued

the Board of Directors in its meeting held on 06.09.2021.

MESCO PHARMACEUTICALS LTD

CIN: L24111UR1986PLC015895

Regd. Office: Upper Kesalton Tallital, Nainital-263 001, Uttarakhand

W: www.mescopharma.com, E-mail:nsparameswaran@mescosteel.com, Tel: 9871862796

EXTRACT OF AUGITED Standarone Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended June 30, 2021

Quarter ended

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

(16,546)

(16,546)

(16,546)

(16,546)

(0.00)

20,320,600

(5,030)

(5,030)

(5.030)

(5,030)

(0.00)

The above is an extract of the detailed format of the standalone financial Results for the guarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the

The Company has adopted Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder, with

effect from April 1, 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the measurement and recognition principles laid

The results for Quarter ended on June 30, 2021 presented here are Ind-AS Compliant and the Statutory Auditors has given Limited Review Report of the

The above unaudited financial results for the guarter ended on June 30, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by

Due to outbreak of COVID-19 globally and in India, the Company's management has made initial assessment of likely adverse impact on business and

Previous year period figures have been rearranged and regrouped wherever necessary to make them comparable with current period figures.

financial risks, and believes that the impact is likely to be short term in nature. The management does not see any medium to long term risks in the

down in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules made thereunder

quarter ended June 30, 2021 is available on the Stock Exchanges' website www.bseindia.com and Company's website www.mescopharma.com.

20,320,600

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021 31.03.2020

(6,000)

(6,000)

(6.000)

(6.000)

(0.00)

20,320,600

Total Income from Operations

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Notes:

Equity Share Capital (In Qty)

Sheet of the previous year

operations): Basic and Diluted

FINANCIAL EXPRESS

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or

ADINATH TEXTILES LIMITED

Regd. Office: Village Bholapur, P.O. Sahabana, Chandigarh Road, Ludhiana-141123. Tel.: +91 161-2685270, 9876100948, CIN: L17115PB1979PLC003910

Email: atl@shreyansgroup.com Website: www.adinathtextiles.com Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company in respect of Equity Shares of the Company shall remain closed from Friday, 24th September, 202 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive) for the 41st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 30th September, 2021 at

11:00 A.M. at the registered office of the Company. Further notice pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, is also given

as follows: Business as set out in the Notice of 41st Annual General Meeting dated 25th June, 2021 sent to all Shareholders, may be transacted by voting through electronic means. The remote e-voting window will open at 09.00 A.M. on 26th September, 2021 and close at 05.00 P.M. on 29th September, 2021.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 23rd September, 2021, may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as well as voting through ballot at the AGM on the businesses as set out in the Notice of AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2021, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request at att@shreyansgroup.com.

The remote e-voting module will be disabled after the above time line by CDSL and E-voting shall not be allowed thereafter The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise the right at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Only those persons whose names are recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the annual general meeting. The Notice, including voting instructions, is available on the CDSL website www.evotingindia.com and on website of the Company at www.adinathtextiles.com

Any query/grievance connecting with voting by electronic means, should be addressed. to the under signed at the above mentioned email id and/or address. By order of the Board

For Adinath Textiles Limited Parminder Singh Company Secretary ACS 43115

Reserve Price

Place: New Delhi

Date: 06.09.2021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

Company's ability to continue as a going concern and meeting its liabilities as and when they fall due

There were no manufacturing activities in the Company during the period under consideration

REGIONAL OFFICE: K.P. COMPLEX, NEAR HOTEL PARK PLAZA, LUDHIANA, PH. NOS. 0161-2407946, 2422854, 2408361

For and on Behalf of Board of Directors of

Mesco Pharmaceuticals Limited

Dhruv Singh

Place: Ludhiana

Dated: 06.09.2021

Director & CEO

DIN 2983286

Year ended

(Audited)

(40,014)

(40,014)

(40.014)

(40.014)

(307,553,361) (307,513,347

20,320,600

(Audited)

(983,321

(983, 321)

(983,321

(983, 321

20,320,600

(0.05)

MEGA E-AUCTION SALE NOTICE

PUBLIC NOTICE FOR e-AUCTION FOR SALE OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTIES

DATE & TIME OF E-AUCTION 23.09.2021, 11.30 A.M. TO 04.00 P.M.

LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD THROUGH DD AND DOCUMENTS (HARD COPY) TO THE AUTHORISED OFFICER 21.09.2021 UPTO 4.00 P.M. LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD THROUGH (ONLINE) RTGS & DOCUMENTS 21.09.2021 UPTO 4.00 P.M. EMD SHOULD BE DEPOSIT THROUGH DD/NEFT/RTGF IN ACCOUNT NO. 3409015560 & IFSC CODE: CBIN0282159

Sale of immovable property/ies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act. 2002 (No. 54 of 2002) Whereas, the Authorised Officer of Central Bank Of India pursuant to the notice issued under Section 13(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 in the Following Ioan

account with right to sell the same for realization of Bank's dues plus interest and other charges as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues. the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(12) read with rule 9 of the Security interest (Enforcement) Rules 2002 proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal https://www.bankeauctions.com/cbi **DESCRIPTION OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES**

No.	Account/Gurarantor	Possession Notice Date	Detail of Properties	Earnest Money Deposit
140.	Accountries	Amount as per Notice		Bid Increase Amt.
1.	MANDI GOVINDGARH	05.11,2019	Industrial Plot in Khata No. 129/223, Rect: 26// Killa no. 18/3(2-4), 23/2(3-18), Land measuring 6 Kanal 2	Rs. 31.50 Lacs.
M/s	Dhankartar Steel Tubes ,	12.02.2020 Symbolic Possession	Marlas to the extent of 20/122 share i.e. land measuring 1 kanal and khata no 68/115, Rect: 26// Killa no.	Rs. 3.15 Lacs.
Thro	ough Partner- Mr. Shamshad Ali	27561509.00 along with	13/2/2/2(1-6), 18/2 (2-12) Land measuring 3 kanal 18 marlas to the extent of 2/39 share i.e. Land	Rs. 10,000/-
	Mr. Shokat Ali And Mrs. Nasreen		measuring 0-4 Marlas and Khewat no. 138, Khatoni no. 241, Rect: 26// Killa no. 18/1(3-4) Land measuring	
	tar W/O Shokat Ali Guarantor Of		Total Land measuring 4 Kanal 8 marlas as per jamabandi for the year 2010-2011 situated at village Allad	
	Shamshad Ali S/O Mr. Shokat Ali	from 25 02 2024 and automates	District Fatehgarh Sahib Punjab in the name of M/S Dhankartar Steel Tubes vide Vasika no. 636 dated 12/ as under: East: Sadhu Singh, West: Road, North: Sadhu Singh, South: Road	07/2016. Bounded
	Mrs. Nasreen Akhtar W/O			-
_	- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		the name of Mr. Shokat Ali S/O Mr. Abdul Gufar And Mrs. Nasreen Akhtar W/O Mr. Shokat Ali	
2.	RAJPURA		A) Plot measuring 13 Bighas 6-48/50 Biswas being 10348/26000 share of 26 Bighas comprised in	Rs. 256 Lacs.
M/S	Hari Om Traders through		Khewat/Khata No. 318/670,(As per Jamabandi for the year of 2007-08),Khasra Nos.349(6-5),350(6-	TAKE BUILDING BUILDING
part	tners Mr. Om Parkash Kukreja,		5),351(6-5),1551/352(7-5)situated at Waka Rakba, Village Saidkheri, Tehsil-Rajpura, Distt Patiala (Now	Rs. 25,000/-
	Vijay Kumar Kukreja and Mr.		Rice Sheller Building is constructed over it), Sale Deed No.5182 dated 27.09.2004 and 6209 date	d 25.10.2005, Sub
Nare	esh Kumar Guarantor Mr. Om	rests to be calculated from	Registrar, Rajpura situated, in the name of M/s Hari Om Traders	
	kash Kukreja , Mr. Vijay Kumar	25.02.2021		
Kuk	creja and Mr. Naresh Kumar	and expenses.		
3.	MCB - LUDHIANA	01.10.2019	Factory land & building located at B-32,E-14/1674, Karabara Bahadur Ke Road, Ludhiana	Rs. 459 Lacs.
M/S	Dove Apparel Pvt. Ltd Through	18.01.2021 Physical Possession	141007(Punjab) measuring 1315 sq. yards regd. Vide sale deed no. 5207 dated 14/08/2015 in the name	Rs. 45.90 Lacs.
Dire	ectors, Mrs. Manisha Jain & Mr.	149001056.00 along with interest	of M/s Dove Apparel Pvt. Ltd.	Rs. 25,000/-
Nee	eraj Kumar Jain And Guarantor	@ MCLR+2.75% on monthly rests	to be calculated from 22.02.2021 and expenses.	
Mrs	. Manisha Jain , Mr. Neeraj Kumar	Jain, Mr. Aditya Jain & Mr. Naman	Jain	

TERMS & CONDITIONS: 1. The e-Auction is being held on "AS IS WHAT IS BASIS" & "AS IS WHERE IS BASIS" Through e-Auction service provider M/s C1 India Pvt. Ltd. 2. The EMD Shall be Payable through DD/NEFT/RTGS in the account mentioned above. 3. Bids shall be submitted to concerned Authorised Officer or through online mode only in the format prescribed. The bid form can be downloaded from https://www.bankeautions.com/cbi. 4. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating login ID and Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc. may contact M/s C1 India Pvt. Ltd. Building No. 301, Floor, Udyog Vihar, Phase-2, Gurgaon, Helpline Nos. +91124-4302000-2021-2022, 96467-96075, Helpline e-mail: support@bankeauctions.com, pandeep.singh@c1india.com and for any property related guery may Contact Authorised Officer during the office hours on any working days. 5. EMD should be deposited through DD/NEFT/RTGS in Account No. 3409015560 & IFSC Code: CBIN0282159. 6. The amount of EMD Paid by the successful bidder shall be adjusted towards the sale price. The Interested bidders may inspect the property at site between 10.30 AM to 5.00 PM between 08.09.2021 to 21.09.2021 with prior appointment of the Authorised Officer Sh. Sukhraj Singh (Mobile No.): 9569046728 7. Bidders can improve there offer in multiple of Rs. 25,000/- & Rs. 10,000/-. 8. If any offer is received within the last 5 minutes of closing time, the bidding time will be extended automatically by another 5. minute and if no bid higher than last quoted highest bid is received within the extended 5 minutes, the auction sale will automatically get closed at the expiry of extended 5 minutes. 9. The bidder who submits the highest bid (not below the reserve price) on closer of online auction shall be declared as successful bidder subject to approval by the authorised officer. 10. Upon confirmation of the sale, the successful purchasers shall deposit 25% of the sale price (Including) EMD amount already paid) Immediately and blance 75% within 15 days failing which the bank shall forfeit amounts already paid / deposit by the purchaser in default of payment, the property, shall be resold and the defaulting purchaser shall not have any claim whatsoever. EMD of unsuccessful bidders shall be refunded within 15 days. 11. The successful purchaser, on payment of entire sale price and completion of sale formalities, shall be issued a sale certificate as per format prescribed under SARFAESI Act & Rules 2002,. The purchaser shall bear the expenses on Stamp Duty and Registration charges if any on the Sale Certificate. 12. Any other Taxes Including GST etc. if applicable will be borne by purchaser. 13. Any statutory and other dues payable and due on the properties shall be borne by the Purchaser. The offers not confirming to the terms of sale shall be rejected. The Bank reserves its rights to reject any or all of the offers or accept offer for one or more properties received without assigning any reasons, whatsoever. 14. This is for information/notice to Borrower/Guarantors/Mortgagor as well as public in general about the holding of sale / auction on aforesaid dates in above mentioned accounts under the provision of SARFAESIACT - 2002 from the date of publication. 15. Further enquires, if any and / or terms and conditions for sale can be obtained from the Authorised Officer/Branch.

DATE: 07.09.2021

Guarantor/Mortgagor

PLACE: LUDHIANA

AUTHORISED OFFICER, CENTRAL BANK OF INDIA

Punjah National Bank Circle office: Ramganga Vihar, Kanth Road, Moradabad [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Description of the Properties (Movable/Immovable)

Amount

The undersigned being the Authorised officer of the PUNJAB NATIONAL BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act

No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular

and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, for the amounts and The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details of properties where possession had been

taken is as follows : Sr. Outstanding Name of the Borrower/ Date of

1.	M/s Zubiya Hide Traders (Borrower's Firm), Sh.	30.06.2014 at SRO-I, Moradabad (UP) (In the name of Sh. Imran s/o Sh. Haji Riyaz) Bounded by: North: Remain Araji and Building Seller Fareek Awwal, South: Property of Masjid Munshi Kareemullah, East: Remain Araji and Building Seller Fareek Awwal, West: Rasta 7.50 mtr wide 2. EM of IP Situated at Islam Nagar, Slaughter House, Asalatpura, Moradabad, (UP), Area -47.00 sq. mtrs., Registered in Bahi No. 01, Zild no. 9778, Pages 341-358, Serial No: 7725, On Dated 15.05.2013 at SRO-I, Moradabad (UP) (in the name of Sh. Imran s/o Sh. Haji Riyaz), Bounded by: North: House of Mohd.	u/s 13(2)	Notice
	Mashariq Qureshi s/o Sh. Shehzadey Qureshi (Proprietor), M/s Al Aysha Foods (Borrower's Firm), Sh. Imran s/o Sh. Haji Riyaz (Guarantor/ Mortgagor), Sh. Shahjada s/o Sh. Haji Riyaz, (Guarantor/ Mortgagor), Smt. Yasmeen Parveen w/o Sh. Gufran (Guarantor/ Mortgagor), Mohd. Gufran s/o Sh. Haji Riyaz (Guarantor), Smt. Rubina Rehman w/o Sh. Shahjada (Guarantor), Smt. Aazia w/o Sh. Imran (Guarantor) Branch: Amroha Gate, Moradabad		Rs. 1,66,24,864.95 as on 31.03.2021 + int. & other charges	Date of Possession 01.09.2021
2.	M/s Al Aysha Foods (Borrower's Firm), Smt. Yasmeen Parveen w/o Sh. Gufran (Partner/ Mortgagor), Sh. Imran s/o Sh. Haji Riyaz (Partner/ Mortgagor), Sh. Shahjada s/o Sh. Haji Riyaz (Partner/ Mortgagor), Smt. Rubina Rehman w/o Sh. Shahjada (Guarantor/ Mortgagor), Smt. Aazia w/o Sh. Imran (Guarantor/ Mortgagor), Sh. Mashariq Qureshi s/o Sh. Haji Riyaz, (Guarantor/ Mortgagor), Mohd. Gufran s/o Sh. Haji Riyaz (Guarantor/ Mortgagor) Branch: Amroha Gate, Moradabad	Registered in Bahi no. 01, Zild No. 10248, Pages 1-18, Serial No. 18709, on Dated 16.11.2013 at SRO-I, Moradabad (in the name of Mohd. Gufran s/o Sh. Haji Riyaz), Bounded by : North : Rasta Gali 10 Feet Wide, South : House of Mohd. Islam, East : House of Smt. Aizaz Shama, West : House of Smt.	Rs. 2,67,02,634.48 as on 31.03.2021 + int. & other charges	Date of Demand Notice 29.04.2021 Date of Possession 01.09.2021

5. EM of IP Situated at Mohalla - Asalatpura, Moradabad, (UP), Area 203.75 sq. mtrs., Registered in Bahi No. 01, Zild No. 10531, Pages 287-314, Serial No. 3391, On Dated 17.02.2014 at SRO-I, Moradabad (UP) (In then name of Smt. Yasmeen Parveen w/o Gufran), Bounded by : North : Remaining Property of Sufi Gulam Chisti, South : Rasta 9 feet wide, East : Araii Seller, West : Rasta 14 feet Wide

6. EM of IP Situated at Mohalla - Asalatpura-4, Moradabad, (UP), Area 179.22 sq. mtrs., Registered in Bahi No. 01, Zild No. 11229, Pages 197-230, Serial No. 19490, on Dated 16.10.2014 at SRO-I, Moradabad (UP) (In the name of Sh. Masharig Qureshi s/o Sh. Shehzadey Qureshi), Bounded by: North: Rasta 6 feet Wide, South: House of Aarfeen, East: Property seller and in the name of Smt. Aazia, West: Rasta 12 feet Wide

7. EM of IP Situated at Mohalla - Asalatpura-4, Moradabad, (UP), Area 220.38 sq. mtrs., Registered in Bahi No. 01, Zild No. 11230, Pages 1-36, Serial No: 19500, on Dated 16.10.2014 at SRO-I, Moradabad (UP) (In the name of Smt, Aazia w/o Sh, Imran), Bounded by : North : Gali 6 feet wide, South : House of Rubina, East : House of Babu Building, West : Jujme House of Haji Aarfeen and House of Seller Now Masharig Qureshi

8. EM of IP Situated at Mohalla-Slaughter House, Asalatpura, Moradabad, (UP), Area-118.62 sq. mtrs., Registered in Bahi No.01, Zild No. 10740, Pages 85-102, Serial No. 8380, on Dated 28.04.2014 at SRO-I, Moradabad (UP) (In the name of Smt, Aazia w/o Sh, Imran), Bounded by: North: Jujme House of Abdulla & Jujme House of Shareef urf Laddan, South: House of Mohd, Rihaan urf Guddu, East: Rasta 3.83

mtr Wide, West: Jujme House of Saleem & Jujme Plot Babu Bhai M/s Al Haq Foods (Borrower's Firm), Sh. Ahatshamul 1. EM of Industrial Building Measuring Area- 3480 sq. mtrs., Situated at Khasra No: 461 Mi., Village - Mauza - Rs. 5,62,81,745.61 29.04.2021

Haq s/o Sh. Haji Tahuar Haq (Proprietor/ Mortgagor), Mortgagor), Sh. Mohd. Khalid s/o Sh. Mohd. Shahid (Guarantor) Sh. Nasar Adil Qureshi s/o Sh. Zafar Adil Qureshi (Guarantor) Branch: Amroha Gate, Moradabad

Bhojpur, Dharampur, Ehatmali, Moradabad, (UP) (In the name of Sh. Ahatshamul Haq s/o Sh. Haji Tahuar as on 31.03.2021 + Smt. Rubina w/o Sh. Ahatshamul Haq (Guarantor/ Hag), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 5952, Pages: 1-16, Serial No: 13422, on dated 29:10:2007, in the int. & other charges office of Sub - Registrar - Moradabad (UP) EM of Industrial Building Measuring Area-3190 sq. mtrs., Situated at Khasra No: 461 Mi. (1/4 Area) & Khasra

No: 462, Village - Mauza - Bhoipur, Dharampur Ahatmali, Pargana- Moradabad, (UP) (In the name of Sh.

Ahatshamul Haq s/o Sh. Haji Tahuar Haq), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 6283, Pages: 231 - 250, Serial No: 6982, on dated 31.05.2008 in the office of Sub - Registrar - Moradabad.

3. EM of Plot Measuring Area- 910 sq. mtrs., Situated at Khasra No: 454, Village - Mauza - Bhojpur, Dharampur, Moradabad, (UP) (In the name of Sh. Ahatshamul Haq s/o Sh. Haji Tahuar Haq), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 11749, Pages: 363 - 380, Serial No: 7105, on dated 28.04.2015 in the office of Sub - Registrar - Moradabad (UP)

Hag s/o Sh. Haji Tahuar Hag), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 10303, Pages: 361 - 390, Serial No: 20056, on dated 07.12.2013 in the office of Sub - Registrar - Moradabad (UP) 5. EM of Plot No. O-24-A Situated at Transport Nagar Yojna, Near R.T.O. Office, Sambhal Road, Moradabad, (UP) Total Admeasuring Area-900 sq mtr., Consisting into 5 Sale Deed mentioned below, 5. (a) Area-212.50 sq. mtrs., (In the name of Sh. Ahatshamul Hag s/o Sh. Haji Tahuar Hag), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 12121, Pages: 103 - 148, Serial No: 15007, on dated 10.09.2015 in the office of Sub - Registrar -Moradabad (UP), 5. (b) Area- 217.50 sq. mtrs., Situated at Transport Nagar, Moradabad, (UP), (In the name of Sh. Ahatshamul Haq s/o Sh. Haji Tahuar Haq), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 12031, Pages: 167 - 202, Serial No: 13186, on Dated 01.08.2015 In the office of Sub - Registrar - Moradabad (UP), 5. (c) Area- 217.50 sq. mtrs., Situated at Transport Nagar, Moradabad, (UP), (In the name of Smt. Robina w/o Sh. Ahatshamul Haq), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 12031, Pages: 131 - 166, Serial No: 13185, on dated 01.08.2015 In the office of Sub - Registrar - Moradabad (UP), 5. (d) Area-212.50 sq. mtrs., Situated

at Transport Nagar, Moradabad, (UP), (In the name of Smt. Robina w/o Sh. Ahatshamul Haq), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 12121, Pages: 61 - 102, Serial No: 15006, on dated 10.09.2015 in the office of Sub -Registrar - Moradabad, 5. (e) Area 40.00 sq. mtrs., Situated at Transport Nagar, Moradabad, (UP), (In the name of Sh. Ahatshamul Haq s/o Sh. Haji Tahuar Haq), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 12121, Pages: 149 - 178, Serial No: 15008, on dated 10.09.2015 in the office of Sub - Registrar - Moradabad (UP)

VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

<u>'IMPORTANT'</u> Whilst care is taken prior to

entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

MENTOR HOME LOANS INDIA LTD CIN U67120RJ1995PLC009580

Phone: 0141 261 1999 Email: compliance@mentorloans.co.in | Website: www. mentorloans.co.ir

in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the 26th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent only by email/permitted mode to all those Members. whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars. Members can join and participate in the 26th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 26th AGM and

the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 26th AGM are provided in the Notice of the 26th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 26th AGM and the Annual Report will also be available on Company's website i.e. www.mentorloans.co.in and Central Depository Services (India) Limited("CDSL")'s website www.evotingindia.com In case you have not registered your e-mail address with the Company/Depository, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report and login details for e-voting:

The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, PAN(self-attested scanned copy of PAN

image of share certificate (front and back) by sending an e-mail to Company at compliance@mentorloans.co.in. The members are requested to provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID). Demat Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-

Holding attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company at compliance@mentorloans.co.in and/or Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP. By order of the Board

Place: Jaipur

Company Secretary PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED

KALINA, SANTACRUZ (E), MUMBAI -400098 Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices to the borrowers, co-borrowers, guarantors as detailed hereunder, calling upon the respective borrowers, co-

borrowers, quarantors to repay the amount mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the same. The said borrowers, coborrowers, guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, co-borrowers, guarantors and public in general that the authorized officer of the company has taken possession of the property described hereunder in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act r/w rule 8 of the said rules on the dates mentioned along with. The borrowers, co-borrowers, guarantors in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of M/s. Phoenix ARC Pvt. Ltd. for the amount specified therein with future interest, costs and charges from the respective dates. Details of the borrowers, co-borrowers, guarantors, properties mortgaged, name of the trust outstanding dues, demand notices sent under section 13(2) and amounts claimed there under are given as under:

Loan Account No., Loan Amount 1. Mr. Kuwar Singh & Mrs. Rajbala Devi & Mr. area measuring 200 sq yards i.e, 167.2 sq 1)Phoenix trust FY 20-6 Scheme C Mr. Kuwar Singh & Mrs. Rajbaia Devi & Mr. mtrs and built up area measuring 83.6 Sq 2)21.12.2020

Bhupender Singh & Mr. Mohit Kumar All At: House Mtrs. Khasra No 430, Situated Near Sector 3)02.09.2021 No. 228 Agahpur, Sector 41 Noida Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201303. Also At: Shop No. 1 Vill 41 In The Village Agahpur Pargana & Tehsil 4) Rs.35,98,045/- (Rupees Thirty Five Near, Indian Overses Nithari Sector -31, Bank Noida Dadri, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. Lakh Ninety Eight Thousand and Forty Near, Indian Overses Nithari Sector -31, Bank Noida 201301. East: House of Amrit Singh West Five Only) due and payable as of

Uttar Pradesh -201301 201301. East: House of Amrit Singh, West: Five Only) due and payable as o Loan Account Numbers: PR00311094 & PR00469937 House of Late Sah Ram, North: 12.0 Ft Wide 17.12.2020 with further interest Loan Amount Sanctioned: Rs.35,00,000/- (Rupees Road, South: House of Umed Singh. applicable from 18.12.2020 along with Name of the Mortgagor: Mrs. Raj Bala Devil costs and charges until payment in full. Thirty Five Lakhs Only). 2. Mr. Sita Ram & Mrs. Sushma Devi & Mr. Sumit Ram & All that piece and parcel of shop No. B-8, area 1)Phoenix trust FY 20-6 Scheme C Mr. Vikas All At: 356, Gali No. 1, Noida Gautam measuring 27.66 sq yards i.e 23.14 sq mtrs size 2) 21.12.2020

Chhalaria, Sector 44, Buddha Nagar, Noida, Uttal 20'9"x12, and common area 6.66 sq yards i.e. 3)02.09.2021 Pradesh - 201301. Also All At: Shop No. B8, Khasra No. 5.6 sq mtrs size 12'x5' (With Roof Rights) 4) Rs. 41,83,724/- (Rupees Forty 16M, In Carnal Market Main Sadarpur Road, Village Comprising Khasra No. 16m Situated In Carnal Chhalera, Sector 44 Pargana & Tehsil Dadri, Gautam Market Main Sadarpur Road, Village Chhalera Sector 44 Pargana & Tehsil Dadri, Distt. Gautam Only) due and payable as o Budh Nagar, U.P-201301. Loan Account Numbers: PR00427597 & PR00613513 Budh Nagar, U.P - 201301. East: Road, West: 16.12.2020 with further interes Loan Amount Sanctioned: Rs. 33,93,297/- (Rupees Vendor Plot, North: Shop No. B-9, South: Shop applicable from 17.12.2020 along Thirty Three Lakh Ninety Three Thousand Two Hundred No. B-7. Name of the Mortgagor: Mrs. Sushma Devi. Ninety Seven Only). payment in full.

Suresh Kumar Bagri S/o. Mr. Prem Ratan Bagri & Mrs. 1380 Sq. Feet, part of Khashra No. 6/14, 2)14.06.2021 Santosh Bagri W/o Mr. Gautam Bagri All At: C-34, Ground residential Colony known as Ashoka Enclave 3) 02.09.2021 New Friends Colony, Second Floor, New Delhi- 110065. Loan Account Numbers: PR00178716 & PR00125212 8

Total Loan Amount Sanctioned: Rs.56, 00,000/- (Rupees Fifty Six Lakh Only).

Plot No. C-35, West: 30 feet wide Road. Bagri.

Floor, Sector-37, Ashoka Enclave, Part-II, Faridabad, Haryana Part II, revenue estate of village Palla, Tehsil 4)Rs. 97,73,434/- (Rupees Ninet 121003. All Also At: 14/3, Highway Chowk, Mathura Road, & Distt. Faridabad, vide registered Sale Deed Seven Lakh Seventy Three Faridabad, Haryana- 121003. All Also At: House No- D-963, document No. 9376, dated 31.03.2004. The Thousand Four Hundred Thirty above said plot is bounded as under: North: Four Only) due and payable as of Plot No. C-33, East: Plot No. C-31, South: 14.06.2021 with further interes applicable from 15.06.2021

Name of the Mortgagor: Mr. Suresh Kumar alongwith costs and charges until payment in full. For any query please contact Mr. Somesh Sundriyal (+91 9910563402) & Mr. Prashant Gautam (+91 9643615436)

Place: Delhi & NCR, Date: 02.09.2021



CIN: L74999MP2017PLC043234

Tel: +91-7412-490 966; Fax: +91-7412-247 022 NOTICE OF THE 4™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, CUT-OFF DATE AND E-VOTING

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue, the Fourth (4") Annual General Meeting (AGM) of the Members of D. P. Abhushan Limited will be held on Wednesday, September 29, 2021at 04:30 P.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary Businesses as set out in the notice of 4" AGM. In accordance with the above mentioned MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, the Notice of 4" AGM along with Annual Report 2020-21 have been sent through electronic mode only to

those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Member may note that Notice and Annual Report 2020-21have been uploaded on the website of the Company at www.dpjewellers.com, website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com

In light of the MCA Circulars, the shareholders whether holding equity shares in demat form or physical form and who have not submitted their email addresses and in consequence to whom the notice of 4" AGM and Annual Report 2020-21 could not be serviced, may temporarily get their e-mail addresses registered by following the procedure given below:

 In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@dpjewellers.com. In case shares are held in Demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), Name,

client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@dpjewellers.com.

Alternatively, member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be. Post successful registration of the e-mail address, the shareholder would get soft copies of notice of 4" AGM and Annual Report

2020-21 and the procedure for e-voting along with the user-id and the password to enable e-voting for 4[™] AGM. In case of any queries, shareholder may write to the Company at cs@dpiewellers.com. Shareholders are requested to register/update their complete bank details and Email Ids with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts if shares are held in dematerialized mode by submitting the requisite documents.

closed. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Wednesday, September 22, 2021 ("Cut-off date"), shall only be entitled to avail the facility of remote evoting as well as e-voting on the Annual General Meeting. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder (as amended) and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and above mentioned MCA Circulars, the Company is providing

There being no physical shareholders in the Company, the Register of members and share transfer books of the Company is not

facility of remote e-voting and e-voting on the date of the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through electronic The remote e-voting will commence on 9:00 A.M. on Sunday, September 26, 2021and will end on 5:00 P.M. on Tuesday, September 28, 2021, During this period, the members of the Company holding shares as on Cut-off date may cast their vote

electronically (Remote E-Voting). Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of e-voting shall be made available at the 4" AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 4thAGM may also attend the 4th AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the 4" Annual General Meeting. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM

and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 22, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@dpiewellers.com. However, if you are already registered with NSDL for remote evoting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot Password" option available on www.evoting.nsdl.com.ln terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their Demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their Demat account in order to access e-Voting facility.

In case of any queries for e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also contact Mrs. Versha Gang, Company Secretary of the Company at the registered office of the Company or may write an e-mail to cs@dpjewellers.com or may call on +91-7412-490 966 for any further clarification.

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. In case the shareholders/members have any queries or issues regarding participation in the AGM, you can write an email to evoting@nsdl.co.in or Call us: - Tel: 1800-222-990and 1800 22 44 30. Members attending the meeting through

For, D. P. Abhushan Limited

Versha Gang, Company Secretary

Dated: 06.09.2021 inancialexp.epapr.in

Place : Moradabad

Authorized Officer, Punjab National Bank

Date of Possession

Demand

01.09.2021

4. EM of Land Measuring Area- 2895 sq. mtrs., Situated at Khasra No: 466 & Khasra No: 470/1261, Village - Bhojpur, Dharampur, Ehtamali, Pargana & Tehsil- Moradabad, (UP) (In the name of Sh. Ahatshamul

Place: Ratlam Date: September 6, 2021

New Delhi

SECTOR-18, KASSAR, BAHADURGARH ROAD, NEAR SATSANG BHAWAN, SURY NAGAR, BAHADURGARH-124507 WHEREAS, Mr. Debashis Nanda, Liquidator of J.V. Strips Limited has filed I.A. No. 903/201

VINOD THAKUR, SECTOR 2, POCKET-K, PLOT NO. 114

BAWANA INDIA AREA DELLU 440000

ASHWANI KUMAR SHARMA, ANAND KUMAR BINDAL, ASHOK KUMAR JAIN

NOTICE BY WAY OF SUBSTTUTED SERVICE UNDER

RULE 38 OF NCLT RULES, 2016

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI, COURT II

MR. DEBASHIS NANDA Vs. ROHAN IRON STORE & ORS.

I.A. NO. 903 OF 2019 IN C.P. (IB)-452(ND)/2017

MOHIT AGRAWAL, B 21-595/17/1, PAHWA HOSPITAL ROAD

GILL CHOWK, LUDHIANA, PUNJAB, 141008

BAWANA INDL AREA, DELHI-110039

I. ROHAN IRON STORE

2. KRISHNA ELECTRONICS

3.ILASAKKA TUBES & PIPES

MENTOR

✓ \ HOME LORNS

under Section 35 (b), 35 (n), 60(5) of IBC, 2016 and whereas, the Hon'ble NCLT, New Delh Bench, Court II vide order dated 17.08.2021 allowed the Applicant to issue notice on a concerned parties through Newspaper Publication. TAKE NOTICE that the above-captioned matter will now be listed on 13.09.2021 before the

Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Court II. You may either appear i person or through your Authorized Representative. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the Application

will be heard and determined in your absence.

Debashis Nanda Liquidator for J.V. Strips Limited C S -14, C-Floor, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010 Date: 06.09.2021 Handphone: 9717000163 Place: Ghaziabad

any manner whatsoever.

..(RESPONDENT NO. 1)

..(RESPONDENT NO. 3)

Regd. Office: Mentor House, Govind Marg, Sethi Colony, Jaipur Rajasthan -302004

NOTICE OF 26thANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting (26th AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday. 30th September, 2021at 04:00 P.M. Indian Standard Time ("IST") through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility

card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) mobile number and e mail id and also upload scanned copy of the Holding

> For Mentor Home Loans India Limited Sd/-Rohit Jain

A-47662 **POSSESSION** REGISTERED OFFICE: 5TH FLOOR, DANI CORPORATE PARK, 158, C.S.T ROAD, NOTICE

S. Name and Address of The Borrower, Co-Borrowers'. 1. Name of trust, 2. Demand notice date Details of The Securities

All that piece and parcel of House No.2/28 3. Date of possession, 4. Amount due in Rs.

One Lakh Eighty Three Thousand Seven Hundred and Twenty Foul

with costs and charges until 3. Mr. Gautam Bagri S/o. Mr. Suresh Kumar Bagri & Mr. Plot No. C- 34, Ground Floor, measuring 1)PhoenixtrustFY19-10

Authorised officer: For Phoenix Arc Private Limited Trust FY 19-10

D. P. ABHUSHAN LIMITED

D. P. Jewellers Regd. Off: 138, Chandani Chowk, Ratlam, Madhya Pradesh-457001. - A BOND OF TRUST SINCE 1948 -E-mail: cs@dpjewellers.com; Web: www.dpjewellers.com

NOTICE is hereby given that in view of the continuing Covid-19 pandemic and in accordance with the Circular No. 20 dated May 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020, Circular No. 17 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15. 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") issued by

एरोड्रम में बुजुर्ग महिला की चेन लूटी इंदौर । एरोड्रम इलाके में एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन लुट की वारदात हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। महिला ने बदमाशों को पकड़ने के लिए शोर भी मचाया लेकिन बदमाश भाग निकले । एरोड्रम पुलिस के अनुसार लूट की वारदात श्रीकांता बोहरा निवासी अंजनी नगर के साथ हुई है। 80 वर्षीय श्रीकांता बोहरा अंजनी नगर चंद्रप्रभु धर्मशाला के सामने से गुजर रही थी । उसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनके नजदीक आए और उनके गले पर हाथ मारा । महिला जैसे तैसे संभाली उन्होंने गले में पहनी अपनी चेन देखी तो वह गायब मिली उन्होंने शोर मचाया लेकिन तब तक बाइक सवार बदमाश भाग निकले थे । पुलिस इलाके की सीसीटीवी फ़ुटेज के आधार पर बदमाशों की

शादी का झांसा देकर लूटी आबरू

इंदौर। नागदा की एक लड़की के साथ उसके ही दोस्त ने इंदौर में दुष्कर्म किया है। पीड़िता को आरोपी ने शादी का झांसा दिया और कई बार उससे संबंध बनाए । अब आरोपी ने उसे जातिसूचक शब्द कहकर शादी से भी इंकार कर दिया। विजय नगर पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम संतोष पिता दिनेश वर्मा निवासी ग्राम नरवर है । पीड़िता नागदा की रहने वाली है । दोनों इंदौर में पढ़ाई के साथ नौकरी भी करते हैं । पीडिता ने बताया कि करीब ४ माह पहले आरोपी ने मालवीय नगर में उसके कमरे पर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर आबरू लुटी । उसने विरोध किया तो आरोपी ने शादी का झांसा दिया इसके बाद लगातार आबरू से खिलवाड़ करता रहा। अब आरोपी ने उसे जाति सुचक शब्द कहे और शादी से इंकार कर दिया पीडित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है उसकी तलाश की जा रही है।

शराबी की गाडी और मोबाइल चोरी

इदौर। घर तक नहीं पहुंच पाया, सडक पर ही सो गया। सुबह उटा तो उसकी गाड़ी और मोबाइल गायब थे । पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है । मल्हारगंज पुलिस ने फरियादी महेश पिता बालकिशन सिंह लोधी निवासी आकाश नगर फूटि कोटी की शिकायत पर गाडी और मोबाइल चोरी का प्रकरण दर्ज किया है । पुलिस को बताया कि उसने जमकर शराब पी और फिर अपनी पैशन प्रो गाड़ी से घर जाने के लिए निकला । लेकिन वह रास्ता भटक गया और जिंसी चौराहा एसबीआई एटीएम के पास ही सो गया। कल सुबह उसकी नींद ख़ुली तो जेब में रखा विवो कंपनी का मोबाइल और पास ही खडी उसकी मोटरसाइकिल गायब मिली।

सूने घर से 5 लाख के जेवर चोरी

इंदौर। एक सने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवर और नकदी चरा ले गए। संयोगितागंज पलिस के अनुसार चोरी की वारदात फरियादी कमलेश कौर निवासी चितावत के घर में हुई है। उनके घर में अलमारी में रखे पुराने सोने चांदी के जेवर जिसमें 40 साल पुराना बड़ा हार सोने के दो छोटे हार सोने की चूड़ियां टॉप सोने की झुमकी तीन सोने की चेन ७ अंगुटियां एक मंगलसुत्र सोने की नथ सहित चांदी के भी जेवर चोरी हो चोरी गए माल की कीमत 500000 से ज्यादा बताई गई है।

मलेरिया, डेंगू आदि को लेकर सभी क्षेत्रों में एहतियात बरतने के निर्देश

कलेक्टर मनीष सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। जिले में मलेरिया, डेंगू और अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिये व्यापक इंतजाम किये जा रहे है। घर-घर जाकर सर्वे, रोकथाम के प्रबंध करने तथा नागरिकों को बचाव के संबंध में जागरूक बनाने के लिये दल बनाये गये हैं। जिले में जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिये समन्वित रूप से कारगर प्रयास किये गये थे, उसी तरह के समन्वित प्रयास उक्त बीमारियों से निपटने के लिये भी किये जा रहे हैं। यह जानकारी आज यहां कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा रवीन्द्र नाट्य गृह में ली गयी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में दी गई।

बैठक में नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल सहित सभी अपर कलेक्टर, सभी एसडीओ, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम के सभी झोनल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर्स तथा पंचायत स्तर के कर्मचारी



कोविड को लेकर भी निर्देश

बैठक में बताया कि इंदौर शहर में मलेरिया विभाग, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की संयक्त टीम बनाकर सर्वे तथा नियंत्रण के कार्य किये जा रहे है। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि अधिकारी को कोविड नियंत्रण के लिये सजग रहें। टेस्टिंग का कार्य निरंतर जारी रखें। कोविड पॉनिटिव मरीज पाये जाने पर उन्हें अस्पताल में आवश्यक रूप से भर्ती करवायें। कॉटेक्ट की ट्रेसिंग करें। संबंधित मरीज के घर को कंटेनमेंट झोन बनायें।

उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने अधिकारियों को दायित्व सौंपते हुये निर्देश दिये कि सभी अधिकारी सजग होकर अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें। डेंगू तथा मलेरिया के रोगी पाये जाने पर उनका शीघ्र उपचार प्रारंभ करवायें। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें कि वे मलेरिया एवं डेंग् से बचाव के लिये सभी एहतियाती प्रबंध अपनायें।

इंदौर। देवी अहिल्या उत्सव समिति द्वारा देवी अहिल्याबाई की 226वीं पण्यतिथि सोमवार को 🖥 मनाई गई। इस अवसर पर सुबह राजवाड़ा स्थित अहिल्या प्रतिमा पर विभिन्ना संगठनों ने माल्यर्पण किया। इस मौके पर प्रतिमा पर की गई आकर्षक पुष्प सज्जा आकर्षण का केंद्र था।

सबह आठ बजे देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और अन्ना महाराज द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी प्रतिमा स्थल पर हुआ। वहीं

ऊर्जा मंत्री ने दिए मुख्य महाप्रबंधक संतोष

टैगोर के खिलाफ जाँच के निर्देश

इंदौर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी इंदौर के

मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिंकायतों पर जाँच के निर्देश

दिये हैं। तोमर ने निर्देशित किया है कि जाँच के लिये तीनों विद्युत वितरण कम्पनी के

एक-एक वरिष्ठ मुख्य अभियंता तथा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की समिति

संतोष टैगोर को वहाँ से स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। तोमर ने कहा

का गठन करें। उन्होंने कहा है कि जाँच रिपोर्ट सात दिन में दें। जाँच के दौरान

है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।



शाम 5:00 बजे इसी स्थान से देवी अहिल्याबाई की पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा एमजी रोड थाना से कष्णपरा छत्री. लक्ष्मी मंदिर राजवाड़ा होते हुए

मोबाइल दुकान का शटर उचका कर लाखों के फोन चुराए

इंदौर। मंवरकुआं इलाके में एक मोबाडल दकान को बदमाशों ने निशाना बनाया है । बदमाश दुकान का शटर उसका कर लाखों रुपए के मोबाइल ले उड़े । मंवरकुआ पुलिस के अनुसार चोरी की वारदात श्री राम नगर पालदा में हई। फरियादी विजय पिता कैलाश चंद्र व्यास की यह मोबाइल की दकान है। बीती रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे अगली सुबह आए तो दुकान का शटर उसका हुआ मिला उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अलग-अलग कंपनियों के करीब 15 मोबाइल गायब मिले चोरी गए मोबाइल की कीमत 200000 बताई गई है।

फर्जी आदेश बनाने वाले आईएएस की जमानत याचिका खारिज

दो माह से जेल में बंद है संतोष वर्मा, फर्जी आदेश बनाकर लिया था प्रमोशन

इंदौर। 27 जून को फर्जी आदेश बनाकर प्रमोशन लेने वाले संतोष वर्मा की जिला न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 2 माह पूर्व एमजी रोड थाना पुलिस ने संतोष वर्मा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें कूटरचित दस्तावेज तैयार करके संतोष वर्मा ने आईएएस का पद हासिल करा था। जिला कोर्ट द्वारा उन्हें कुछ दिनों पहले जिला जेल भेज दिया गया था, जहां से लगातार वह जमानत के लिए

को जमानत खारिज की गई थी। इसमें निलंबित क्अर संतोष वर्मा के ?वॉइस सैंपल लिए गए थे। आवेदन लगा रहे लगा रहे हैं। इस समय कोर्ट ने माना था कि इसके पहले वर्मा की शुक्रवार वर्मा ने राजपत्रित अधिकारी होते

सांसद लालवानी ने जताई इंदौर

की कानून व्यवस्था पर नाराजगी

सांसद शंकर लालवानी ने

कहा कि इंदौर एक जागृति

सामाजिक चेतना वाला शांतिप्रिय

शहर है और पुलिस को गुंडों के

खिलाफ एक बड़ा अभियान

चलाना चाहिए और बड़े

अधिकारियों को भी सड़क पर उतर

कर कानून-व्यवस्था संभालनी

चाहिए। वहीं सांसद से मुलाकात के

बाद आईजी हरिनारायण चारी मिश्र

ने सभी अधिकारियों की बैठक

बुलाने की बात कही है।

शंकर

सांसद

लालवानी ने इंदौर के आईजी

हरिनारायण चारी मिश्र से

मुलाकात कर इंदौर में कानून

व्यवस्था की स्थिति पर अपनी

नाराजगी जताई। पिछले दिनों नशे

में अपराधी प्रवती के व्यक्तियों

द्वारा किये गए हत्या कांड से व

शहर की फिजा बिगड़ने से

सांसद लालवानी ने आईजी से

मुलाकात कर स्पष्ट शब्दों में

अपनी नाराजगी जताई।

हुए पद का दुरुपयोग किया। न्यायालयों की न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक प्रशासन को चुनौती देना सीधे-सीधे न्यायालयों को

शराब के लिए मजदुर को मारे चाकू

चुनौती देने जैसा है।

इंदौर। भंवरकुआ इलाके में 2 बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया । घायल युवक पेशे से मजदूर है । बदमाशों ने उसे शराब पीने के पैसे मांगे थे । उसने पैसे ना होने की बात कही तो चाकू से गोद डाला । भंवरकुआं थाने में कल फरियादी इमरान खान पिता नजीर निवासी अंसारी बाग पवनपुरी कॉलोनी की शिकायत पर दो अज्ञात लड़कों के खिलाफ अड़ी बाजी और गंभीर चाकूबाजी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इमरान ने पुलिस को बताया कि पीडी अग्रवाल कंपाउंड के गेट के पास नेमावर रोड पालदा की ओर से वह गुजर रहा था तभी दो बदमाशों ने उसे रोका और उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। उसमें पैसे ना होने की बात कही तो दोनों ने मारपीट शुरू कर दी । एक बदमाश ने चाकू निकाला और उसके पेट पैर और हाथ पर चाकू मार दिया । पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की

तलाश कर रही है।

श्री हरसिद्धी साख सह. संस्था मर्या. सिंघाना जिला धार म.प्र.

पंजीयन क्र. JR/IDR/2014/1428 सिंघाना दिनांक-03-09-21

सेंघाना माँ हरसिद्धी साख सह.मर्या.सिंघाना तह.मनावर जिला धार म.प्र. का वार्षिक व्यापक सम्मेलन दिनांक 18.09.2021 शनिवार को दोपः 11.00 बजे से स्थान माँ हरसिद्धी मंदिर परिसर सिंघाना में आयोजित किया जाना है। सम्मेलन में निम्नांकित विषयो पर विचार होगा अत: यथा स्थान एवं समय पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है कृपया समय पर उपस्थित होने का कष्ट करे यदि वार्षिक आम सभा की गणपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं हुई तो बैठक स्थगित की जाकर उसी दिन उसी स्थान पर 11.30 बजे स्थगित बैठक की कार्यवाही की जावेगी

आमसभा की विषय सची इहराव प्रस्तावों की कार्यवाही का अनमोदन करना । 2 वर्ष 2020-21 वार्षिक पत्रक का अनुमोदन करना । 3 वर्ष 2021-22 का स्वीकृत बजट से कम व अधिक के आय व्यय का पुष्टीकरण करना व स्वीकृति । 4. वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित अनुमानित वार्षिक बजट

5 वर्ष 2021-22 की प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार बाबद । 6 वर्ष 2020-21के संपरीक्षक नियुक्ति पर विचार बाबद। 7 संस्था की चल रही ऋण नीति-जमा नीति का अनुमोदन बाबद । 8. अन्य विषय वासुदेव पाटीदार

मॉ हरसिद्धी साख सह.मर्या.सिंघाना

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार बैंक आईडीबीआई बैंक शाखा धार द्वारा प्राप्त जानकारी एवं निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचि धार. को उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य के सिल्वर हिल कालोनी धार स्थित मकान कमांक 15 भाग. क्षेत्रफल 2490 वर्गफोट,जिसके पूर्व में भूखंड क्र. 14 से हद, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में-आम रास्ता तथा दक्षिण में भूखंड क्र 16 से हद को साम्यिक बंधक रखकर गृह ऋण दिया जाना प्रस्तावित है।

यह कि उक्त संपत्ति के स्वत्व श्रंखला संबंधों दस्तावेजों में से असल पंजीकृत विक्रय विलेख दस्तावेज पंजीकृत कमांक 2246 दिनांक 7-3-1995 जो कि परफेक्ट कार्पोरेशन 44 बड़ा सराफा इंदौर भागीदारी फर्म तर्फे पार्टनर कृष्णदास पिता बोन्दर जी नीमा आयु 35 धंधा व्यापार निवासी 108 जूनी कसेरा बाखल इंदौर द्वारा मोतीलाल एस पटेल पिता श्री ऑकारलाल जी पटेल आयु 45 वर्ष घंघा व्यापार निवासी सिंघाना तह. मनावर जिला घार के पक्ष में निष्पादि. किया गया था कि असल प्रति कहीं गुम हो गई है। जो बहुत तलाशने पर नहीं मिल रही है। यह कि उक्त संपत्ति ए उक्त दस्तावेज पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, स्थानीय शासन विभाग अपिद को कोई ऋण, भार, बोझ, वारसाना हक, स्वत्व या आधिषयत तथा वारसाना आदि का कोई हक, हित भार हो ते वे समस्त संबंधित मुझसे इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 7 (सात) दिवस के अन्दर संलिखित प्रमाण, के मिले अन्यथा बाद मियाद उक्त असल पंजीकृत विक्रय विलेख दस्तावेज पंजीकृत क्रमांक 2246 दिनांक 7-3-1995 को नष्ट मानकर मेरे पश्चकार वित्तीय संस्था द्वारा उक्त संपत्ति को साम्यिक बंधक रखकर भावी ऋणी को ऋण प्रदान कर दिया जावेगा, बाद मियाद किसी भी प्रकार की उजर, आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी। सो सूचित एवं विदित हो। इति दिनांक 02-09-2021

शशी श्रीवास्तव (एडवोकेट) निवासी एलआयजी कालोनी धार जिला धार मप्र

श्री राधे साख सह. संस्था मर्या. बाकानेर

पंजीयन क्र. JR/IDR/1432/DT. 08-01-2014 दिनांक-07-09-21

आमसभा सूचना

संस्था के समस्त अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की आमसभा दिनांक 25-09-21 शनिवार को स्थान संस्था कार्यालय बाकानेर समय 11 बजे आयोजित की गई है। कृपया सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

विषय सूची

1 गत आमसभा कार्यवाही का पुष्टिकरण।

2 वर्ष 2020-21 के वित्तिय पत्रक स्वीकृत करना। 3 वर्ष 2021-22 का अनुमानित बजट स्वीकृत करना।

4 वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजट से अधिक हुए व्ययों का पूरक बजट स्वीकृत करना।

5 संस्था की वर्ष 2021-22 के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति करने विषयक।

6 रुपये 54273/- लाभ का विभाजन बाबद।

7 अन्य विषय प्रशासक की स्वीकृति से रखे जावेंगे।

नोट-कोरम के अभाव में आमसभा की कार्यवाही आधे घंटे स्थगित की जाकर पुनः आधे घंटे बाद उसी स्थान पर मिटिंग की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

> प्रशासक/प्रबंधक श्री राधे साख सह. संस्था मर्या. बाकानेर

सरेराह हत्या करने वाला दूसरा आरोपी भी पकड़ाया

तलाश के लिए बनाई थी अलग-अलग टीमें

इंदौर। रामचंद्र नगर चौराहे पर महज 70 रुपए के लिए पान दुकान संचालक की हत्या के मामले में दसरा आरोपी को भी पलिस गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तलाश में अलग-अलग टीमें बनाई गई थी।

मल्हारगंज थाना क्षेत्र के रामचंद्र नगर चौराहे पर कल रात पान की दकान चलाने वाले पिंट दुबे की हत्या कर दी थी। रात को वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी आरोपी पवन और उसका चचेरा भाई यहां पर आए दोनों

पास में चौकी, लेकिन रहता कोई नहीं

जिस जगह कल रात वारदात हुई उसके सामने ही मल्हारगंज प्रलिस की चौकी बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी की तैनाती नहीं है। एडिशनल एसपी पशांत चौबे ने कहा कि चौकी को दरुख करवाया जा रहा है. वहीं दसरे आरोपी की तलाश में टीमें खाना की गई।

नशे में थे। उन्होंने एक दिन पहले हए 70 रुपए के विवाद को लेकर गाली गलौच की और लोहे के पाइप से पिंट पर हमला कर दिया। पिंट के सिर में गंभीर चोट आई मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी मां शशि दुबे आरोपियों से बेटे को बचाने के

लिए आगे भी आई लेकिन तब तक बेटे की मौत हो गई थी। इधर वारदात के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज चले कि दोनों आरोपियों के बारे में पता लगा है कि वह भीकनगांव के रहने वाले हैं और इंदौर में मजदुरी के लिए आए थे। मामले में एक आरोपी को तो मौके से ही पकड लिया गया था, जबकि दुसरे को

मंदबुद्धि नाबालिंग बेटी को बनाया हवस का शिकार

इंदौर। खजराना इलाके में पिता और बेटी के रिश्तो को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। बेटी मानसिक रूप से विक्षिप्त है । उसकी मां ने उसके साथ गलत हरकत होते हुए देखा तो पति का विरोध किया और थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवार्ड। मामला खजराना थाना क्षेत्र के तंजीम नगर डलाके का है। एक महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ है बलात्कार और पोस्को एक्ट की धाराओं

में केस दर्ज किया गया है। महिला ने पलिस को बताया कि बीती रात वह पति के साथ तीनों बच्चों को लेकर सो गर्ड थी। उसकी बडी बेटी जिसकी उम्र १५ साल है वह मानसिक रूप से कमजोर है। देर रात उसकी नींद खली तो उसका पति उसकी बेटी के साथ गलत हरकत करता हुआ नजर आया । उसने शोर मचाया तो उसका पति वहां से भाग गया । अगले दिन महिला ने अपनी बहन को पुरी बात बताई फिर थाने पहंचकर रिपोर्ट दर्ज करवार्ड ।

नाम परिवर्तन सूचना

सोमवार को पुलिस ने पकड़ा।

यह सुचित किया जाता है कि पूर्व मे मेरा नाम अनिल कुमार काक था अब मेरा नाम अनिल काक हो गया है। अतः अब और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना व सभी दस्तावेजो में अंकित किया जावे।

अनिल काक

पता: 64/67, घार कोठी, इन्दौर-452001 मध्यप्रदेश

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दोर

विज्ञप्ति क.: 18/21-22 ई-टेण्डर CE/ विद्युत एवं यातायात

निविदा सूचना

नगर पालिक निगम, इन्दौर के द्वारा केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत निम्न कार्य के लिए शासकीय विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से ऑनलाइन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। ग्रुप ऑनलाइन क. टेण्डर नं. 1 2 अर्नेस्ट मनी निविदा प्रपत्र ठेकेदारों की वधि का आकार का मूल्य एम.पी.यु.ए.डी.डी. झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 50 ग्रेट लोक निर्माण एस.ओ.आर. ब्रजेश्वरी के अंतर्गत ग्रीन बेल्ट मे विभाग की 2.45.649/-5.000/- 2.000/-定 2/8/21 विकसीत जद्यान में प्रकाश व्यवस्थ सक्षम श्रेणी निगम सची में पंजीकृत करने संबंधी कार्य। पर प्रतिशत दर एम.पी.यु.ए.डी.डी. शहर के प्रमुख मार्ग ए.बी.रोड पर लोक निर्माण एस ओ आर देवास नाका से पंचवटी गेट तक विभाग की 31,75,752/- 31,800/- 5,000/-दि. 2/8/21 विद्यमान लाईटों को एल.ई.डी. में सक्षम श्रेणी निगम सूची परिवर्तित करने संबंधी कार्य। में पंजीकृत

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने एवं बिड सबमीट करने की अंतिम दिनांक 2. टेक्निकल बिड खोलने की दिनांक

: 15.09.2021 शाम 5.30 बजे तक : 17.09.2021 सुबह 11.00 बजे

शतें: (1) आमंत्रित निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन ऑनलाइन ही जारी किया जावेगा।

(2) विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, टेण्डर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिये https://www.mptenders.gov.in पर सुविधा उपलब्ध है।

(3) निविदा में भाग लेने वाली फर्म को ई.पी.एफ. पंजीयन एवं जी.एस.टी. पंजीयन की प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न में

प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ई-मेल: imcvidhyutvibhag@gmail.com सिटी इंजीनियर

तेबंधित पॉलीथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

विद्युत एवं यांत्रिकी नगर पालिक निगम, इन्दौर

D.P. Jewellers

डी. पी. आभूषण लिमिटेड

CIN: L74999MP2017PLC043234 दूरभाष क्रमांक: +91-7412-490966, फैक्स: +91-7412-247 022

कंपनी के चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा, नोटिस दिनांक और ई-वोटिंग का नोटिस

इस बारे में नोटिस दिया गया है कि, जारी कोविड - 19 महामारी को देखते हुए और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी किए गए ''MCA'' परिपत्र संख्या 20 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22 दिनांक 15 जुन 2020 और परिपत्र संख्या 02 दिनांक 13 जनवरी 2021 के अनुसार, सामृहिक रूप से एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की जाये, अतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (OAVM) के माध्यम से आयोजित की जाए। इसी कारण से डी.पी. आभूषण लिमिटेड के सदस्यों की चतुर्थ (4th) वार्षिक सामान्य सभा (AGM), बुधवार 29 सितंबर 2021 को शाम 04: 30 बजे भारतीय समय अनुसार (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (OAVM) के माध्यम से निर्धारित साधारण व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए

उपर्युक्त MCA परिपत्रों और SEBI परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) की सूचना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, केवल उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर सकते हैं कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 को कंपनी की वेबसाइटwww.dpjewellers.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अपलोड किया गया है।

MCA परिपत्रों के आलोक में शेयरधारक चाहे डीमैट फॉर्म या भौतिक रूप में इक्रिटी शेयर रखते हों और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं किए हों और जिसके कारण उन्हें चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) और वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 की सूचना प्रदान नहीं की गयी है,उनसे निवेदन है कि नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता अस्थायी रूप से पंजीकृत करें: यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की हुई कॉपी), पैन (पैन कार्ड की

स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्राति) मेल द्वारा cs@dpjewellers.com पर प्रदान करें। 2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए है, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी) नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) मेल द्वारा cs@dpjewellers.com पर प्रदान करें।

 वैकल्पिक रूप से सदस्य ईमेल द्वारा इस मेल पते पर "evoting@nsdl.co.in" उपरोक्त बिंदु (1) या (2) में बताए गए विवरणों को भेज कर,यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ईमेल पते के पंजीकृत होने के उपरांत सदस्यों को चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा का नोटिस वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 और ई-वोटिंग करने के लिए यूजर आईडी और पॉसवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक कंपनी को cs@dpjewellers.com पर लिख सकते हैं। शेयरघारकों से

अनुरोध है कि वे अपने पूर्ण बैंक विवरण और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ईमेल आईडी दर्ज करें या अपडेट करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खाते को बनाए

कंपनी में कोई भौतिक शेयरधारक नहीं है, इसलिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बंद नहीं की गई हैं। जिन सदस्यों का नाम बुधवार, 22 सितंबर 2021, ''कट-ऑफ डेट'' के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह ही केवल चतर्थ वार्षिक सामान्य सभा में ई वोटिंग करने के हकदार होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के प्रावधानों के अनुसार नियम बनाए गए (जैसा कि संशोधित) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (संशोधित)

के विनियमन 44 और उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी द्वारा चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा के दिन रिमोट ई–वोटिंग एवं ई–वोटिंग की सुविधा, चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग करने के लिए एनएसडीएल (NSDL) के साथ अनुबंध किया है। रिमोट ई-वोटिंग रविवार 26 सितंबर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे से शुरू होगी एवं मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के

दौरान, कंपनी के सदस्य जिनका नाम शेयर धारक रजिस्टर में कट-ऑफ डेट को अंकित किया होगा उन्हें ही रिमोट ई-वोटिंग की पात्रता होगी। सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि

क) रिमोट ई-बोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान की तारीख और समय के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और किसी सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ख) ई-वोटिंग की चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा में उपलब्ध कराई जाएगी

ग) जो सदस्य बतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा से पहले ही रिमोट ई–बोटिंग के माध्यम से अपना बोट डाल चुके हैं, वे भी चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा की सूचना में प्रदान की गई है।

कोई भी व्यक्ति, जो चतुर्थ वार्षिक सामान्य सभा की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और बुधवार, 22 सितंबर, 2021 तक कंपनी का सदस्य

बन जाता है यानी वह भी रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए इन मेल पते evoting@nsdl.co.in या cs@dpjewellers.com पर अपनी पंजीकृत ईमेल पते से उपयोगकर्ता आईडीऔर पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते है। हालाँकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना बोट डालने के लिए अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''पासवर्ड भल'' गए विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सचीबद्ध कंपनियों दारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए डीमैट खाते के माध्यम से बोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ई-बोर्टिंग के लिए किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का उपयोग कर सकते हैं और शेयर धारकों के लिए ई-बोर्टिंग उपयोगकर्ता पुस्सिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या टोल फ्री नं.1800 222 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते है।

सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री वर्षा गांग से भी संपर्क कर सकते हैं या cs@dpjewellers.com को एक ई-मेल लिख सकते हैं या किसी और स्पष्टीकरण के लिए + 91 7412 490 966 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो विज्ञअल माध्यमें सुविधा के माध्यम से वार्षिक सामान्य सभा में भाग ले सकते हैं। वार्षिक सामान्य सभा में शामिल

होने के निर्देश वार्षिक सामान्य सभा की सूचना में दिए गए हैं। यदि शेयरधारकों / सदस्यों के वार्षिक सामान्य सभा में भागीदारी के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप evoting@nsdl.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या हमें दूरभाष क्रमांक: 1800 222 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियो विजुअल के माध्यम से सभा में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजनों

दिनांक: 06 सितंबर, 2021

डी. पी. आभूषण लिमिटेड

कंपनी सचिव